USFB/CS/SE/2020-21/32

Date: August 01, 2020

To,

**National Stock Exchange of India Limited** 

**Listing Department** Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

Symbol: UJJIVANSFB

**BSE Limited** 

**Listing Compliance** P.J. Tower, **Dalal Street** Mumbai - 400 001

**Scrip Code:** 542904

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation about publication of Financials Results for the quarter ended June 30, 2020

We hereby inform you that pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Financials Results for the quarter ended June 30, 2020 was published and appeared in Financial Express (All Editions) and Jansatta (All Editions) on August 01, 2020.

A copy of same is enclosed herewith.

This intimation shall also be available on the Bank's website at www.ujjivansfb.in.

We request you to take note of the above.

Thanking You,

Yours faithfully,

For UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED

Chanchal Kumar

Company Secretary and Compliance Officer

### **ALORA TRADING COMPANY LIMITED CIN NO:** L70100MH1982PLC296275

Regd. Off.: 1, Ground Floor, Plot No. 37/39, Rajyog Building, Carpenter 1st Street, C P Tank, Girgaon, Mumbai – 400004 | **Phone**: +91 8590306070 **E-mail**: aloratradingcompany@gmail.com | **Website**: www.aloratradingltd.com

EXTRACTS OF THE STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2020

(Rs. in Lakhs except for the Earning Per Share Quarter Year **Particulars** Ended Ended Ended 31.03.2020 31.03.2019 No. 31.03.2020 (Audited) (Audited) (Audited) 1. Total income from operations 4792.95 3142.18 673.00 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, 19.55 Exceptional and/or Extraordinary items) 0.79 12.46 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 0.79 12.46 19.55 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 9.49 14.24 (2.18)Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 9.49 14.24 1244.25 Equity Share Capital 1244.25 1244.25 7. Earnings Per Share (of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-0.080 0.114 (0.002)

Note: The above result is an extract of the detailed Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange viz. www.bseindia.com and website of the Company viz. www. aloratradingltd.com

For Alora Trading Company Limited

0.080

0.114

Suresh Naskai

Date: 30/07/2020 Place: Mumbai

Diluted:

**Managing Director** DIN: 08537352

(0.002)



### Ujjivan Small Finance Bank Limited

Registered Office: Plot No. 2364/8, Khampur Raya Village, Shadi Kampur, Main Patel Road, New Delhi 110 008, India; Tel: +91 11 3043 2121 Corporate Office: Grape Garden, No. 27, 3rd 'A' Cross, 18th Main, 6th Block, Koramangala, Bengaluru 560 095, Karnataka, India; Tel: +91 80 4071 2121

Website: www.ujjivansfb.in; E-mail: investorrelations@ujjivan.com Corporate Identity Number: L65110DL2016PLC302481 Statement of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020

381		Quarter	ended	Year	ended
SI.	Particulars	June 30, 2020	June 30, 2019	Mar 31, 2020	Mar 31, 2019
No.		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	77,498	70,550	302,581	203,757
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7,435	14,245	46,624	26,842
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7,435	14,245	46,624	26,842
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,465	9,448	34,992	19,922
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1153	5	E	Ta
6.	Equity Share Capital	172,822	144,004	172,822	144,004
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(*)		123,808	17,959
8.	Earnings per Share (EPS) Basic (₹): Diluted (₹):	0.32 0.32	0.66 0.66	2.19 2.18	1.20

1. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on July 31, 2020.

2. The Limited Review under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors. An unqualified report has been issued by them thereon.

3. The information related to the total comprehensive income and other comprehensive income has not been furnished as IND AS is not yet made applicable to the Bank. 4. The Bank has followed the same significant accounting policies in the preparation of

these financial results as those followed in the annual financial statements for the year

5. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the guarter ended June 30, 2020 is available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Bank's website www.ujjivansfb.in. For and on behalf of Board of Directors of

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED

Nitin Chugh

Place: Bengaluru Date: July 31, 2020

Managing Director and CEO DIN: 01884659

<u>|KLAKSHMI</u>



Regd. Office: Jaykaypuram, District - Sirohi, Rajasthan - 307019 Secretarial Office: Gulab Bhawan, 3rd Floor, (Rear Block), 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, Email: jklc.investors@jkmail.com, Website: www.jklakshmicement.com

INFORMATION REGARDING 80TH ANNUAL GENERAL MEETING

Phone: 91-011- 30179862-864-869-894

Dear Member(s)

 The 80<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of JK LAKSHMI CEMENT LIMITED will be held on Friday, the 28th August 2020 at 2:30 P.M. Indian Standard Time, through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum

under Section 103 of the Act.

- 2. In compliance with the aforesaid circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the Financial Year 2019-20 along with Boards' Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto (collectively referred as 'Annual Report') will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participant (DP). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.jklakshmicement.com and at the websites of the Stock Exchanges, i.e. BSE Ltd. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.
- The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting has been provided in the Notice of the AGM which will be sent to you shortly.
- 4. Manner of registering/updating, e-mail addresses for receiving Annual Report and mandate for receiving Dividend:
- (A) Shares held in Physical Mode: Please send an email to the Company at jklc.investors@jkmail.com or RTA at admin@mcsregistrars.com mentioning the First / Sole Shareholder's name, Registered Folio Number, E-mail Address, self-attested copy of Permanent Account Number card, self-attested copy of address proof (Aadhar card/voter ID) card/passport/utility bill) and contact number. Bank Account particulars - (i) Bank Name and address (ii) Bank Account Number (iii) IFSC Code (iv) MICR Number (v) Cancelled Cheque leaf. Shares held in Demat Mode: Please contact your DP and register
- your Email address and Bank Account details in your demat account, as per the process advised by your DP.
- 5. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM. Please write to the Company for any assistance.



B.K. Daga Sr. Vice President & Company Secretary

Trivandrum

30/07/2020

For JK Lakshmi Cement Ltd.

Lotus Auto Engineering Limited – In Liquidation CIN: U74120DL2010PLC210772 Registered office: 3 & 4, LSC, Pamposh Enclave, Greater Kailsah-1, New Delhi - 110048

INVITATION FOR SUBMISSION OF SCHEME OF COMPROMISE OR

ARRANGEMENT UNDER SECTION 230 OF COMPANIES ACT. 2013 FOR LOTUS **AUTO ENGINEERING LIMITED** NOTICE for submission of scheme of Compromise or Arrangement under Section 230 of Companies Act, 2013 for Lotus Auto Engineering Limited (presently under Liquidation).

Lotus Auto Engineering Limited was incorporated on 25 th November, 2010 having its registered office at 3 & 4, LSC, Pamposh Enclave, Greater Kailsah-1. New Delhi 110048 and is operating a factory located at SP 501B, RIICO Industrial Area, Bhiwadi Rajasthan - 301019. The Company is presently manufacturing low to medium weight machined castings and supplying for companies like Maruti Suzuki India Limited Cummins Inc, BorgWarner, Brakes India, Mushashi, Honda, Multimatic etc. Interested parties may refer to the website of Company www.lotus-auto.in for scheme process document including eligibility criteria and other related documents. Last date for

submission of scheme is extended from 31 st July, 2020 to 20 th August 2020. For any further information or clarification including scheme submission process document please reach out at ip.lotus@rbsa.in.

> **Ashok Kumar Gulla** Liquidator for Lotus Auto Engineering Limited IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-2018/10174 **RBSA Restructuring Advisors LLF** Flat No.23, I A P L House, 2nd Floor, South Patel Nagar, New Delhi, 110008 ashok.gulla@rbsa.in; ip.lotus@rbsa.ir



Place: New Delhi

Date: 01-08-2020

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED (Formerly known as LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED) Administrative Building, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Ref: UPMRC/CE-CONTRACT/2020-21 Date: 01 August, 2020

# NOTICE INVITING TENDER

- Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. invites open tenders through competitive
- a) Contract AGCC-01: Construction of elevated viaduct and 3 Nos. elevated Metro Stations (vis. Taj East Gate, Basai & Fatehabad Road) including Civil. Architectural Finishes, Water Supply, Fire Fighting, Fire Detection, E&M works and PEB structures on Priority Corridor-1 of Agra Metro.
- b) Contract AGCC-03: Civil, PEB and E&M works for construction of depot cum workshop, including O&M quarters & structural, architectural, plumbing, external development, VAC, firefighting, etc. at PAC Land Depot for corridor-1 of Agra Metro.
- c) Contract: LKTM-01 (R1): Track Maintenance from CCS Airport to
- Munshipulia Metro Station and Transport Nagar Depot of Lucknow Metro. Tender documents can be purchased between 09:30 Hours to 17:30 Hours (IST) on any working day from 06.08.2020 for tenders a), b) & c) from the office of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Lucknow.
- For further details, please visit UPMRCL website www.upmetrorail.com. Kumar Keshav, (Managing Director)



### Ujjivan Financial Services Limited CIN No: L65999KA2004PLC035329

Registered Office: Grape Garden, No. 27, 3rd A Cross, 18th Main, 6th Block, Koramangala, Bengaluru 560 095; Phone: +91 80 40712121; Email: investor.relations@ujjivanfin.com

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, August 10, 2020, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company (standalone and consolidated) for the quarter ended June 30, 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.ujjivan.com and may also be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Pursuant to the above and in accordance with the "Ujjivan Code of Conduct for Prevention of Insider Trading", the trading window for dealing in the shares of the Company and its listed subsidiary 'Ujjivan Small Finance Bank Limited' by its designated persons has already been closed from July 01, 2020 and will open 48 hours after the announcement / declaration of the aforesaid financial results on August 10, 2020.

For Ujjivan Financial Services Limited

Place: Bengaluru Date: July 31, 2020

Sanjeev Barnwal Company Secretary and Compliance Officer

www.ujjivan.com

### **ASPINWALL AND COMPANY LIMITED** CIN: L74999KL1920PLC001389

Regd. Office: "Aspinwall House", Kawdiar-Kuravankonam Road, Kawdiar, Thiruvananthapuram - 695 003. Ph: 0471-2738900

# NOTICE

NOTICE is hereby given that the 100th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Aspinwall and Company Limited ("the Company") will be held on Thursday, August 20, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means ('OAVM') in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), Circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13,2020 and May 5,2020 (the "MCA Circulars") and circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice dated July 17, 2020 which has been E-mailed to the Members along with the Annual Report. In compliance with the Act, the Rules made thereunder and the above Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and the Annual Report 2019-20 will be sent to those shareholders whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents. The Annual Report for the financial year 2019-20 including the Notice of AGM shall also be made available on the Company's website at www.aspinwall.in, website of Stock Exchange i.e., www.nseindia.com.

# The Members may note the following:

- a) Members will be provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic Voting system (e-voting) facility provided by CDSL. The manner of voting remotely by the Shareholders holding shares in electronic mode 8 physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM.
- b) The e-votingperiodcommencesonAugust 17,2020(9.00a.m. IST)and ends on August 19,2020 (5.00 p.m. 1ST). During this period. Members may cast their votes electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on August 13,2020 (cut-off date). Any person, who is a Member of the Company holding shares either in dematerialized form or physical form as on the cut-off date is eligible to cast votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM, using remote e-voting.
- c) Those Shareholders, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM
- d) Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to AGM may also attend I participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to Please treat this Notice as our attempt to reach all our Members who have missed

or not received other communication on this subject matter and intend to participate in proposed remote e-voting. Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Notice may get their email address registered with the RTA. Post successful registration of the email address, the Member will receive soft copy of the Notice and the procedure for remote evoting along with the User ID and the Password to enable remote e-voting for this Notice, in case of any queries, Member may write to info@skdcconsultants.com. Members are also requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the Depositories / Depository Participant and in respect of physical holdings with the RTA. Any person, who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 13, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or info@skdc-consultants.com. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your votes. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. N.Balasubramanian, M/s BVR & Associates, Practicing Company Secretary, Ernakulam, C.P. No.4996, Membership No. FCS: 6439, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process, in a fair and transparent manner. In case of any queries relating to voting by electronic means, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at Toll Free No.: 1800-222-990. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738 ) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

For ASPINWALL AND COMPANY LIMITED Neeraj R Varma Company Secretary



Regd. Off: 8-2-293/82/A/700, Ground Floor, Road No 36, Jubilee Hills, Hyderabad-500033, Telangana, India. Ph No: 040-40300300, Fax No:040-40300328

Email: cstech@moldtekindia.com, Website: www.moldtekgroup.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 10th August, 2020 at the registered office of the company situated at Plot No. 700, Ground Floor, Jubilee Hills, Road No. 36, Hyderabad 500033, Telangana, India, inter-alia, to consider approve and take on record the un-audited Financial Results - Consolidated and Standalone of the Company for the guarter ended on 30th June, 2020 for the financial year 2020-2021. The information contained in this notice is also available on the Company's website a

www.moldtekgroup.com and the website of Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). For Mold-Tek Technologies Limited Date: 31.07.2020 Manipatruni Swati Patnaik

Place: Hyderabad (Company Secretary)

<KCI>

## KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: "KCI Plaza" 23C, Ashutosh Chowdhury Avenue, Kolkata-700019 Website:www.kanoriachem.com Email: investor@kanoriachem.com Tel.No.033-40313200 CIN: L24110WB1960PLC024910

NOTICE

Dear Member(s).

Notice is hereby given that the 60th (Sixtieth) Annual General Meeting of the Company ("AGM") will be convened on Tuesday, the 15th September, 2020 at 11.00 A. M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (\*Listing Regulations") read with General Circular Nos.14/2020,17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular(s)") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1. CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common

Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2020 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with the respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.kanoriachem.com and the websites of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com respectively. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with

Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes electronically on the resolutions set out in the Notice of the AGM, Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedures for joining the AGM and the manner of participation and casting vote through remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Members, who will be attending the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. Further, the Members who have already cast their votes through remote e-voting shall not be allowed to vote at the meeting, however, they can participate in the proceedings of the meeting.

Members, whose email ids are not registered with the Company/Depository, are requested to take the following action for registering their email ids for obtaining Annual Report and login details for e-voting.

Aadhar Card) by email to the Registrar & Share Transfer Agent, C. B. Management Services (P) Limited at rta@cbmsl.com (ii) In case shares are held in demat mode, please contact and register your email

address with your respective Depository. The above information is being issued for the information and benefit of all the Members

For Kanoria Chemicals & Industries Limited Place: Kolkata N. K. Sethia

Date : 31st July, 2020 Company Secretary

# $\mathbf{NILE}$ LIMITED

ISO 9001 **Company** 

Regd. Office: Plot No 38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam Village, Renigunta Mandal, Tirupati - 517520 Andhra Pradesh Corp.Office: Plot No.24A/A, MLA Colony, Rd. No.12, Banjara Hills, Hyderabad- 500 034, Telangana. Ph.: 040-23606641, Fax: 040-23606640 E-mail: legal@nilelimited.com; Website: www.nilelimited.com

### NOTICE Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, notice

is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday, 12th of August, 2020 interalia, to consider and approve the unaudited financial results of the company for the quarter ended 30th June, 2020. For **NILE Limited** Place: Hyderabad

Sd/-

Date: 31.07.2020 Company Secretary

# GREENPANEL GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED

## Registered Office: Makum Road, Tinsukia, Assam-786125

Corporate Office: Thapar House, 2nd Floor, 163, S.P. Mukherjee Road, Kolkata-700026 Phone No. (033)-4084-0600, Fax No.: (033) 2464-5525, CIN: L20100AS2017PLC018272 Email: investor.relations@greenpanel.com; Website: www.greenpanel.com

### NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 6, 2020, inter-alia, to consider approve and take on record the standalone and consolidated unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2020.

Trading) Regulations, 2015 (PIT Regulations) and Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading in Securities of the Company, the Trading Window for dealing in shares of the Company has already been closed for the Designated person and their immediate relatives with effect from July 1, 2020 and will be reopened on August 2020 after expiry of 48 hours of submitting the above referred Financial Results of the Company to the Stock Exchanges on August 6, 2020. The said Notice may be accessed on the Company's website at https://

www.greenpanel.com/investor-updates and may also be accessed on the Stock Exchange websites at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com.

For Greenpanel Industries Limited

Lawkush Prasad

Ramesh Kursar Gupta

SUBEX LIMITED

(CIN: L85110KA1994PLC016663)

Registered Office:

RMZ Ecoworld, Outer Ring Road,

Devarabisanahalli,

Bengaluru - 560103

Phone: +91 80 6659 8700

Fax: +91 80 6696 3333

Email: info@subex.com

Website: www.subex.com

that Meeting No. 3/2020-21

of the Board of Directors of

the Company will be held on

Monday, August 10, 2020

through Video Conferencing, to

consider inter-alia, the unaudited

financial results of the Company

(Standalone & Consolidated)

as per the Indian Accounting

Standards (Ind-AS) for the

on the Company's website:

the websites of the Stock

Exchanges, www.bseindia.com

Further details are available

and

For Subex Limited

G. V. Krishnakanth

quarter ended June 30, 2020.

www.subex.com

& www.nseindia.com.

NOTICE

Notice is hereby given

Managing Director CRI: 80047124

Date : July 31, 2020 Place : Kolkata

Company Secretary & AVP-Legal

### **B.P. CAPITAL LIMITED** CIN: LT4896HR1894PLC872642

Ragd Off: Pictino, 345, HSIDC, Fostweet Plan, Sector-17, Bahadurgath, Jhajiot, Haryana-15451T Phone 01215-222501,62, Fax: 01276-222501, Website: www.tpcapitalin, Email: bpcapitalinshid@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (Re.ln Lace) Quarter Quarter Year

Partouan	ended 31.03.2020 [Audited]	21.03.2013 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)
Total income from operations Net Profit / (Loss)for the period(before Tax,	0	0	0	0
Exceptional and/or Estraordinary items) Not Profit / (Loss/for the period before Tax.	(4.30)	(3.13)	(15.61)	(19.56)
(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax	(4.30)	(3.53)	(15.61)	(19.56)
(after Exceptional and/or Extraordinary items). Total Coreprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	(4.31)	(3.14)	(15.62)	(19.57)
and Other Comprehensive Income (offer tax))	(4.31)	(3.54)	(15.62)	(19.57)
Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as	301.18	301.18	301.18	301.18
shown in the Balance Sheet of previous year). Earnings Par Share (of Rs. 13/-each) (for continuing and discontinued operations)	0	- E	(70.02)	(54.40)
Bosic	(0.54)	(0.10)	(0.52)	(0.65)
Diluted	(0.14)	(0.10)	(0.52)	(0.65)

Financial Year ended March 31, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SESI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formed of the aforesaid Audited Financial Results is available on the BSE's websites, viz., www.bseindia.com and on the Company's website event bocapital in. The above insults are prepared in accordance with the Companies (ind AS) Rules, 2015. For and on behalf of the Board of Directors of B.P. Capital Limited

Place: Haryana Date: 30th July, 2020

SUBEX

# CANARA ROBECO

### Canara Robeco Mutual Fund Investment Manager: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001. Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC071003

NOTICE NO. 28 Change in the Fund Management Responsibilities of the schemes of Canara Robeco Mutual Fund (CRMF):

This addendum shall form an integral part of the Statement of Additional Information ("SAI"), Scheme

Information Document ("SID") and Key Information Memorandum ("KIM") of the Scheme(s) of CRMF as amended from time to time.

Unit holders are requested to visit www.canararobeco.com in respect of their amounts remaining unclaimed or unpaid and follow the prescribed procedure therein.

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd.

(Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund)

**Authorised Signatory** 

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Company Secretary & Compliance Officer Dated : July 31, 2020 Place : Bengaluru

## MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED Regd. Office: 43, Balasundaram Road, Colmbatore - 641 018 | E-mail: info@magnacast.com

Website: www.magnacast.com | CIN No: L31103TZ1990PLC002836

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2020

			80			(Rs. in Lakhs)	
SI.	Particulars			Quarter Ended	ı	Year Ended	
No.	1000000000		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	
			(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations		1,730.09	2018.90	2,867.83	9,632.13	
2	Net Profit for the period ( before Tax, Exceptional ar Extraordinary items)	nd / or	212.72	44.52	295.79	850.10	
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptions and/or Extraordinary items)	al Items	212.72	44.52	295.79	850.10	
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Extraordinary items)	Items and/or	152.72	28.08	215.79	668.66	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Inc		152.72	44.37	215.79	684.95	
6	Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- each)		458.22	458.22	458.22	458.22	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as show	m in the		00000000	20012	6,891.59	
	Audited Balance Sheet of the previous year	D i	-	- 0.04	- 174	44.80	
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discountinued operations)	Basic Diluted	3.33 3.33	0.61 0.61	4.71	14.59 14.59	
No	ites:	***************************************					

Date: 31-07-2020

Place: Mumbai

. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchange, BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and the Company's website www.magnacast.com 2. There was no sale of castings during the month of April, 2020 as the Company had to suspend its operations due to lockdown

announced by the Government w.e.f 25th March, 2020. The lockdown was since lifted w.e.f. 4th May, 2020 and the Company resumed its manufacturing activities w.e.f. 6th May, 2020. Figures have been regrouped and reclassified wherever necessary. 4. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings

held on 31st July, 2020. For and on behalf of the Board Date: 31.07.2020

N.Krishna Samaraj Managing Director

CIN: L70101WB1989PLC047465 Registered Office: 6A, Geetanjali,

of the Company will be held on Friday, the August 7, 2020, inter alia, to consider the Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020. The Trading Window for dealing in Equity Shares of the Company has

shall re-open 48 hours after the above Financial Results are made This is in modification of our earlier notification about the meeting convened on August 5, 2020, now stand postponed due to

lockdown declared by the Govt. of

West Bengal on that date (i.e.

August 5, 2020) in connection with COVID-19 pandemic. The notice can be accessed on the websites of the Company (www.sumedhafiscal.com) and

> Sd/- Bijay Murmuria Director

Place: Coimbatore.

New Delhi

Further to inform that, pursuant to the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider

The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 including the

(i) In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back). PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of

of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and SEBI Circular.

All Unit holders of Canara Robeco Mutual Fund (CRMF) are requested to take note of the following changes

in the Fund Management Responsi	bilities of the schemes of CRMF with	n effect from 1st August, 2020.
Scheme Name	Existing Fund Manager	New Fund Manager
Canara Robeco Infrastructure	<ul><li>(1) Mr. Shridatta Bhandwaldar</li><li>(2) Mr. Miyush Gandhi</li></ul>	<ul><li>(1) Ms. Cheenu Gupta</li><li>(2) Mr. Shridatta Bhandwaldar</li></ul>
Canara Robeco Dual Advantage Fund - Series 1	For Equity Portfolio: Ms. Cheenu Gupta For Debt Portfolio:	For Equity Portfolio: Mr. Sanjay Bembalkar For Debt Portfolio:
	Ms. Suman Prasad	Ms. Suman Prasad

All other terms and conditions of the aforesaid Schemes shall remain unchanged.

**SUMEDHA** SUMEDHA FISCAL SERVICES LTD.

B. Middleton Street, Kolkata - 700 071. Tel: 91 33 2229 8936/6758/3237/4473; Fax: 91 33 2226 4140 / 2265 5830 Email: investors@sumedhafiscal.com Website: www.sumedhafiscal.com

NOTICE Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors

already been closed and the same

BSE Limited (www.bseindia.com). For Sumedha Fiscal Services Ltd.

Place: Kolkata Date: 31.7.2020

financiales, epan, in

# दूसरे जिलों में तैनाती किए जाने से अधिकांश डॉक्टर नाखुश

भागलपुर, ३० जुलाई (जनसत्ता)।

कोरोना काल के दौरान बिहार सरकार ने 929 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की है। इन्हें सात दिनों के अंदर तैनात किए जिलों में अपना योगदान देने को कहा गया है। मगर अधिकांश डॉक्टर अपनी तैनाती से नाखुश हैं। इन सभी डॉक्टरों का पदस्थापन इनके गृह जिलों में न कर दूसरे-दूसरे जिलों में किया गया है। नाराजगी की यही मुख्य वजह है।

नव नियुक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि हमारी तैनाती गृह जिलों में की जाएगी। यदि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बीते साल हुई प्रतियोगी परीक्षा देते समय यह बताया जाता कि गृह जिलों में तैनाती नहीं होगी। तो इम्तहान में ही शरीक नहीं होते। ऐसे भी ये अपने-अपने इलाके के सरकारी

मरीजों का भी इलाज बेहतर तरीकों से कर रहे हैं। तभी कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा 67 फीसद है। अब तक 30 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। जबकि बिहार में इंतजाम के नाम पर क्या है किसी से छुपा नहीं है। फिर भी हम जान जोखिम में डाल संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये अपने पदस्थापना से खुश नहीं हैं। इनमें कईयों ने योगदान न देने का मन बना लिया है। इनका कहना है कि यह कोई प्रशासनिक पद तो है नहीं। जो गृह जिलों में तैनाती नहीं हो सकती। सरकार इस पर विचार करे।

### APEX CAPITAL AND FINANCE LIMITED (Formerly Apex Home Finance Limited)

CIN: L65910DL1985PLC021241

Email: contact@apexfinancials.in; Website: www.apexfinancials.in; Tele-Fax: +91 11 40348775

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2020

# Regd. Office: L-3, Green Park Extension, New Delhi - 110016 **EXTRACTS OF AUDITED FINANCIAL RESULTS**

	(Rs. in Lac						
SI.		Quarte	r Ended	Year E	nded		
No.	PARTICULARS	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2019		
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		
1	Total Income from operations	152.61	89.02	676.61	249.04		
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	24.12	17.07	58.36	56.87		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	24.12	17.07	58.36	56.87		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	17.13	12.60	41.63	42.08		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	17.13	12.60	41.63	42.08		
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	591.99	591.99	591.99	591.99		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	=	-	1874.65	1833.01		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basic (Rs.) Diluted (Rs.)	0.29 0.29	0.21 0.21	0.70 0.70	0.71 0.71		

The above audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2020 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on 30.07.2020 and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 30.07.2020. The Statutory Auditors of the Company have carried out a statutory audit of the aforesaid financial results.

The above is an extract of the detailed format of quarterly & yearly Financial Results filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2020 are available at the Stock Exchange Website at www.bseindia.com and on the Company's Website at www.apexfinancials.in.

> By the Order of the Board For Apex Capital and Finance Limited

> > DIN-00039567

Date: 30.07.2020 Place: New Delhi

(Shekhar Singh) **Managing Director** 

# मान एल्युमिनियम लिमिटेड

पंजीकृत. कार्यालयः 4/5, फर्स्ट फ्लोर, असफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002 CIN: L30007DL2003PLC214485. फोन: 011-40081800.

वेबसाइटः www.maanaluminium.com, ईमेलः secretarial@maanaluminium.in

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए

वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण (रू. लाखों में ईपीएस को छोडकर)

	विवरण	310	समाप्त वर्ष		
<b>화</b> . 私		30 जून 2020	31 मार्च 2020	30 जून 2019	31 मार्च 2020
		(अनं के क्षित)	(अंके क्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1	प्रचालन सकल से कुल आय	4,993	9,851	13,591	52,419
2	अपवादात्मक मदों और कर से पहले शुद्ध लाम	215	84	348	915
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ	215	84	348	915
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ	161	83	228	755
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	161	89	227	753
6	इक्विटी शेयर पूंजी	676	676	676	676
7	प्रत्येक रू. 10/- से प्रति शेयर आय	6			
	बेसिक व डायल्यूटिड ईपीएस	2.38	1.23	3.37	11.17

1. 31 जुलाई, 2020 को आयोजित बैठक में 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. सेबी (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई उपरोक्त वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। सम्पूर्ण वित्तीय परिणाम www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.maanaluminium.com पर उपलब्ध है।

> कृते और बोर्ड की ओर से हस्ता/-(रविन्द्र नाथ जैन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

> > DIN: 00801000

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः ३१ जुलाई, २०२०

तराई फूड्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 13, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, टेली. नं.: 011-41018839 CIN No.:L15142DL1990PLC039291, वेबसाईटः www.taraifoods.com, ईमेलः grvnces.tfl@gmail.com 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अंकेश्वित म्हैंडएलॉन विनीय परिणामों का सार

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2020 अंकेक्षित	समाप्त पूर्व तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तत्स्थानीय तिमाही 31.03.2019 अंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.2020 अंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.2019 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय(शुद्ध)	69.1	91.8	37.9	299.5	239.3
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-14.0	10.7	-19.3	-6.3	-13.3
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-16.5	10.7	2854.9	-8.8	2860.9
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	-16.5	10.7	2854.9	-8.8	2860.9
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	-15.8	10.7	2855.8	-8.0	2860.9
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/-)	1536.41	1536.41	1536.41	1536.41	1536.41
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई आरक्षित एवं लाभ तथा हानि खाते में डेबिट बैलेन्स को छोडकर)	448.85	448.85	448.80	448.85	448.80
8.	मूल एवं तरल ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) (कर, विशिष्ट एवं आसाधारण मदों के बाद)					
	मूलः	-0.11	0.07	18.59	-0.06	18.63
	तरलः	-0.11	0.07	18.59	-0.06	18.63

. कम्पनी के वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड

2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 31.7.2020 को आयोजित कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किये गये।

3. कम्पनी फेश. फॉजन फड़स तथा सब्जियों के प्रचालन का व्यवसाय करती है तथा इंड ए एस–108 के अनुसार विवरण देने योग्य कोई खंड नहीं है। 4. उसे चालू अवधि के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आँकड़े पुनर्समूहीकृत, पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

> तराई फूड्स लिमिटेड के लिये डा. आर. पी. सिंह पूर्ण कालिक निदेशक DIN: 03615102

> > मख्य वित्त अधिकारी

पैन नं. -AXRPS3807K

स्थानः रुद्रपर

तिथि: 31.07.2020

**पंजी. कार्या**.: 103, पाल्को हाउस 2162/T-10, मेन पटेल रोड, नई दिल्ली-110008 ई-मेल आईडी : csvirtualeducation@gmail.com, वेबसाइट : www.virtualeducation.in, सीआईएन : L67120DL1993PLC052256 दूरभाष : 011-25702148

विवरण	31 मार्च, 20	31 दिस.,19	31 मार्च, 19	31 मार्च, 20	31 मार्च, 19
	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय	81.58	119.80	142.59	442.71	1330.47
विशिष्ट एवं असाधारण मदों तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	8.02	9.03	15.88	36.93	64.59
करों, माइनॉरिटी इन्टरेस्ट तथा एसोसिएट्स के लाभ/(हानि)के शेयर के बाद शुद्ध लाभ/ (हानि)	8.02	9.03	15.88	23.66	46.91
अविध हेतु कुल व्यापक आय	8.02	9.03	15.88	23.66	46.91
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 1/-प्रति)	4236.64	4236.64	4236.64	4236.64	4236.64
पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित	-	1 - 1	- 1	- 1	- "
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.002	0.002	0.004	0.006	0.011
क) मूलः					
ख) तरलः					
Farmill.					

।. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, तथा गुरुवार, 30 जुलाई, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए सांविधिक लेखा. परीक्षकों द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट एटॉक एक्सचैंज में दाखिल की जा रही है।

2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वित्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। ऑडिट रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीर

स्थान : नई दिल्ली

नीरज कौशिक ( निदेशक डीआईएन : 02462310

हस्ता./

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 30 जुलाई, 2020

लोटस ऑटो इंजीनियरिंग लिमिटेड-परिसमापनाधीन सीआईएन : U74120DL2010PLC21 0772 पंजीकृत कार्यालय : 3 एवं 4, एलएससी, पम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048

नाटस ऑटा इंजीनियरिंग लिमिटेड हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत व्यवस्था की योजना जमा करने हेतु आमन्त्रण लोटस ऑटो इंजीनियरिंग लिमिटेड (वर्तमान में परिसमापनाधीन) हेत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के

तहत समझौता या व्यवस्था की योजना जमा करने हेतु सुचना। लोटस ऑटो इंजीनियरिंग लिमिटेड 25 नवम्बर, 2010 को निगमित हुई थी जिसका पंजीकृत कार्यालय 3 एवं 4 एलएससी, पाम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 पर तथा इसकी प्रचालनात्मक फैक्ट्री एसपी 501बी, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, राजस्थान-301019 पर स्थित है। कम्पनी वर्तमान में निम्न से मध्यम भार की मशीन कास्टिंग निर्मित कर रही है और मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड, क्युमिन्स इंका., बोर्ग वार्मर, ब्रेक्स

इण्डिया, मुशाशी, होण्डा, मल्टीमैटिक आदि जैसी कम्पनियों को सप्लाई कर रही है। इच्छुक पार्टियाँ पात्रता मानदण्ड तथा अन्य सम्बद्ध दस्तावेजों सहित योजना प्रक्रिया दस्तावेज हेतु कम्पनी की वेबसाइट www.lotus-auto.in देख सकती हैं। योजना जमा करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2020 से 20 अगस्त, 2020 तक है। योजना जमा प्रक्रिया दस्तावेज सहित किसी अन्य सूचना या स्पष्टीकरण के लिए कृपया

ip.lotus@rbsa.in पर सम्पर्क करें।

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 01-08-2020

अशोक कुमार गुल्ल लोटस ऑटो इंजीनियरिंग लिमिटेड के परिसमापव IBBI/IPA-003/IP-N00024/201 7-2018/10174 आरबीएसए रीस्टक्चरिंग एडवाइजर्स एलएलपी. 23 आईएपीएल हाउस दुसरी मंजिल, दक्षिण पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 ashok.gulla@rbsa.in; ip.lotus@rbsa.in

साई बाबा इन्वेस्टमेंट एण्ड कॉमर्शियल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन : L01100DL1981PLC012736

पंजीकृत कार्यालय : 33/36, बेसमेंट, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008. ई-मेल आईडी : saibabacommercials@gmail.com वेबसाइट : www.saibabainvest.co.in

दुरभाष : 011-41056203 सम्पर्क नं. : +917303988341 31.03.2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु स्टैण्डअलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(31/03/2020) (31/03/2020) ( लेखापरीक्षित ) (31/03/2019) ( लेखापरीक्षित ) (नीचे नोट का सन्दर्भ लें) असाधारण मदों से पूर्व\*) (255.54) (201.98) 33.16 कर पूर्व अवधि हेतु निबल (201.98) 33.16 (255.54) कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ (255.54)(201.98) 23.75 अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (क पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित] (201.98) 23.75 (255.54) 1,126.50 अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर) 184.66 असतत प्रचालनों हेतु) (2.27)(1.79)0.02 . डाइल्युटेड

उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.saibabainvest.co.in) पर उपलब्ध है।

कृते साई बाबा इन्वेस्टमेंट एण्ड कॉमर्शियल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड

(2.27)

(1.79)

तिथि : 31.07.2020 स्थान : नई दिल्ली

पूर्ण कालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) डीआईएन : 0791071

### बी.पी. कैपिटल लिमिटेड CIN:L74899HR1994PLC072042

Regd.Off.: Plot no. 345. HSIIDC, Footwear Park Sector-17, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana-124507 कोनः 01276-222501, 02, फैक्सः 01276-222501, वेबसाईटः www.bpcapital.in, ई-मेलः bpcapitallimited@gmail.co 31 मार्च. 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

विवरण	त्रमान्य ।त्रमाहा	समाना सिमाहा	समाया जय	समाया जप
	31.3.2020 ( अंकेक्षित )	31.3.2019 ( अंकेक्षित )	31.3.2020 ( अंकेक्षित )	31.3.2019 ( अंकेक्षित )
परिचालनों से कुल आय	0	0	0	0
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(4.30)	(3.13)	(15.61)	(19.56)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)		(3.13)	(15.61)	(19.56)
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)		(3.14)	(15.62)	(19.57)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(4.31)	(3.14)	(15.62)	(19.57)
इक्विटी शेयर पूंजी	301.18	301.18	301.18	301.18
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	-	-	(70.02)	(54.40)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध				
प्रचालनों के लिये) मूलः	(0.14)	(0.10)	(0.52)	(0.65)
तरलः	(0.14)	(0.10)	(0.52)	(0.65)
from and a del ( and an anti- and anni-	110TL) 2015	- <del>C.C.</del>	2 2 16 1	×

**टेप्पणी**: उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उ**द्**घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप व सार है। उक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पर्न की वेबसाईट www.bpcapital.in पर उपलब्ध है। उक्त परिणामों को कम्पनी (इंडएएस) नियमावली, 2015 वे अनुसार तैयार किया गया है।

> निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर बी.पी. कैपिटल लिमिटेड रमेश कुमार गुप्ता

Place:Haryana **Date: 30th July, 2020** 

प्रबंध निदेशक डीआईएन:00047724

आरसीसी सीमेन्ट्स लिमिटेड CIN:L26942DL1991PLC043776 Regd.Off.: 702, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001

फोनः 011-43571042, फैक्सः 011-43571047, वेबसाईटः www.rcccements.com, ई-मेलः rcccementslimited@gmail.coi 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	31.3.2020 ( अंकेक्षित )	31.3.2019 ( अंकेक्षित )	31.3.2020 ( अंकेक्षित )	31.3.2019 ( अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	0	0	0	0
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(4.01)	(2.79)	(12.68)	(11.15)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	(4.01)	(2.79)	(12.68)	(11.15)
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(4.01)	(2.80)	(12.68)	(11.16)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(4.01)	(2.80)	(12.68)	(11.16)
इक्विटी शेयर पूंजी	560.20	560.20	560.20	560.20
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	-	-	(184.52)	(171.84)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये) मूलः तरलः	(0.07) (0.07)	(0.05) (0.05)	(0.23) (0.23)	(0.20) (0.20)

टिप्पणी: उपरोक्त सेबी ( सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा ), 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत बीएसई में दाखिल की गई 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है उक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी क वेबसाईट www.rcccements.com पर उपलब्ध है। उक्त परिणामों को कम्पनी (इंडएएस) नियमावली. 2015 वे अनुसार तैयार किया गया है।

> निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर आरसासा सामन्टस ालामट (सुनील कुमार प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 30 जुलाई, 2020 डीआईएन:000175301

# इन्टरवर्ल्ड डिजीटल लिमिटेड

CIN:L72900DL1995PLC067808

Regd. Off.: 701, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- 110001 फोनः 011-43571044-45; फैक्सः 011-43571047, वेबसाइट: www.interworlddigital in, ईमेल : interworlddigital.in@gmail.com 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

No.				
विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019
0.	( अंकेक्षित )	( अंकेक्षित )	( अंकेक्षित )	( अंकेक्षित )
परिचालनों से कुल आय	0	0	0	0
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(20.30)	(20.03)	(76.89)	(87.84)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	(20.30)	(20.03)	(76.89)	(87.84)
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(16.84)	(17.47)	(64.27)	(75.12)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(16.84)	(17.47)	(64.27)	(75.12)
इक्विटी शेयर पूंजी	4783.77	4783.77	4783.77	4783.77
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	-	-	7384.09	7448.36
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों		0 -		
के लिये) मूलः	0.00	0.00	(0.01)	(0.02)
तरलः	0.00	0.00	(0.01)	(0.02)

**टिप्पणी**: उपरोक्त सेबी (सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत बीएसई में दाखिल की गई 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है उक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.interworlddigital.in पर उपलब्ध है।

इन परिणामों को कम्पनी (इंडएएस) नियमावली, 2015 के अनुसार तैयार किया गया है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर इन्टरवर्ल्ड डिजीटल लिमिटेड

> पीयश कमार अग्रवाल डीआईएन: 00090423

(KVB) Karur Vysya Bank Smart way to bank

डिवीजनल कार्यालय, सं. ६, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, पूसा रोड, सामने : मेट्रो पिलर नं. 80, नर्ड दिल्ली-110 006

एसपी-2 : कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत जबिक, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभृति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) व वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में द करूर वैश्य बैंव लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों (1) मैसर्स रुद्र बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय: डी-53, ओखला फेज I, नई दिल्ली-110 020, (2) श्री मुकेश खुराना पुत्र १ राम प्रकाश खुराना, बी-7, एक्स.-100, सफदरजंग एन्कलेव, दिल्ली, (3) श्री नितिन दुआ पुत्र १ राम नाथ दुआ, 95, सेक्टर-15ए, फरीदाबाद-121 002 से कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों वे भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 90,68,749.75 (रुपये नब्बे लाख अड़सठ हजार सात सौ उनचार एवं पचहत्तर पैसे मात्र) का पुनर्भगतान करने के लिए कहते हुए दिनांक 19.03.2020 को एक माँग सुचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि अदा करने में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य कं सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति प 30 जलाई. 2020 को कब्जा कर लिया है।

''प्रतिभृत आस्तियों को छुडाने के सम्बन्ध में उपलब्ध समय-सीमा के लिए कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है जो निम्नवर

(8) यदि प्रतिभत लेनदार के समस्त लागतों, प्रभारों तथा किये गये व्ययों सहित बकाये प्रतिभत लेनदा को बिक्री या अन्तरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय अदा कर दिये जाते हैं तो प्रतिभूवि लेनदार द्वारा प्रतिभृत आस्ति की बिक्री या अन्तरण नहीं किया जायेगा और उस प्रतिभृत आस्ति व अन्तरण अथवा विक्रय हेत् कोई भावी कदम नहीं उठाया जायेगा।"

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा इस सम्पत्ति से कोई संव्यवहार न करने की चेतावर्न दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 90,68,749.75 (रुपये नब्बे लाख अडसठ हजार सात सौ उनचास एवं पचहत्तर पैसे मात्र) तथा इस पर ब्याज के लिए द करूप वैश्व बैंक लिमिटेड के अभियोग का प्रभार होगा

सम्पूर्ण आवासीय प्लॉट सं. २, ब्लॉक-एसडी, सेक्टर-70, नोएडा, गौतम बद्ध नगर जिला. लगभग माप 407.40 वर्ग मीटर तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं: दक्षिण : 18.00 मीटर चौडी सडक उत्तर : प्लॉट सं. बीएच-30 पश्चिम : प्लॉट सं. बीएच-38 पूर्व : प्लॉट सं. एसपी-02

तिथि : 30.07.2020 अधिकत प्राधिकार द करूर वैश्य बैंक लिमिटे स्थान : दिल्ली

# सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपबन्ध (अ) के मामले में

मैल्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय कार्यालय सं. एफ-11, प्रथम तल, संट सोल्जर टॉवर जी-ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 पर

..... आवेदक एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी

अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए सोमवार, 13 जुलाई, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गर्य

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :

> मैल्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U70102DL2007PTC162466

कार्यालय सं. एफ-11, प्रथम तल, सेंट सोल्जर टॉवर, जी-ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 ई-मेलः mpmdpl@gmail.com

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से मैल्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

तिथि: 29.07.2020 स्थानः नई दिल्ली

मनोज वसन्त सोमवंशी निदेशक

( डीआईएन: 06454734

# Build a Better Life

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 2364/8, खामपुर राया गाँव, शादी कामपुर, मेन पटेल रोड, नई दिल्ली 110 008, भारत; दूरभाष: +91 11 3043 2121 **कॉपीरेट कार्वालय:** श्रेप गार्डन, नं. 27, 3 'A' क्रॉस, 18 मेन, 6 ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगतुरु 560 095, कर्नाटक, भारत: बूरभाष: +91 80 4071 2121 वेबसाइट: www.ujjivansfb.in; ईमेल: investorrelations@ujjivan.com कॉपेरिट पहचान संख्या: L65110DL2016PLC302481

समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण जून 30, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए

		समाञ	104181	सम	स वप
सं.	विवरण	जून 30, 2020	जून 30, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
	Textorial	अनांके क्षित	अनांके क्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालन से कुत आय	77,498	70,550	302,581	203,757
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हालि) (कर, अपवाद और/वा असाधारण मद्दी से पहले)	7,435	14,245	46,624	26,842
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हानि) कर से पहले (अपनाद और / वा असाधारण मदीं के बाद)	7,435	14,245	46,624	26,842
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हामि) कर के बाद (अपवाद और / या असाधारण मदीं के बाद)	5,465	9,448	34,992	19,922
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाम / (हानि) से दुक्त (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आव (कर पश्चात)]	1881		8	(4)
6.	इक्टिटी शेकर पूंजी	172,822	144,004	172,822	144,004
7.	आरक्षित राशि (पुन:मूल्यांकन आरक्षित राशि के रिवाय) जैसा को पिछले वर्ष की अकेक्षित तुलन पत्र में दिखाया मचा है		-	123,808	17,959
8.	प्रति शेथर आय (EPS) मूल (१): आशिक (१):	0.32 0.32	0.66 0.66	2.19 2.18	1.20 1.20

1. उपरोक्त परिणामों की अंकेक्षण समिति ने समीक्षा की और इसके बाद जुलाई 31, 2020 की बैठक में निदेशक मंडल ने इसे मंजूर और लिखित किया।

 बैधानिक अकेक्षकों द्वारा रोबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत सीमित समीक्षा की गई है। उसके बाद उन्होंने एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी है।

3. कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय के संबंध में जानकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि बैंक पर

आईएनडी एएस अभी तक लागू नहीं हुआ है।

4. यह वितीय परिणाम बनाने में बैंक ने उन्हीं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पालन किया है जिनका पालन मार्च 31, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक वितीय विवरणों में किया गया है। अधर रोबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुपालन में स्टॉक एक्सचेंजो मे विस्तृत प्रारूप मे दिए गये तिमाही वितीय परिणामों का सारांश दिया गया है। जुन 30, 2020

को समाप्त हुई तिमाही के लिए वितीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सवेंजो की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर और बैंक की वेबसाइट www.ujjivansfb.in पर निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड नितिन पुग प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

DIN: 01884659

स्थानः वेनलुरु दिनांक: जुलाई 31, 2020

तिथि : 30.07.2020

# अस्पतालों में अपनी सेवा पहले दे रहे हैं। डॉक्टरों के दल ने बताया कि कोविड-19 के

# कोरोना मरीजों के नाम उजागर करने का निर्देश देने से इनकार

मुंबई, 31 जुलाई (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कोविड-19 मरीजों के नाम उजागर करने का निर्देश देने से संबंधित आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार का परामर्श ऐसे मरीजों के नाम उजागर करने से रोकता है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल ने उस जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें दो व्यक्तियों ने अनरोध किया था कि कोविड-19 मरीजों के नाम उजागर किए जाएं ताकि उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में आसानी हो और अन्य लोगों को संक्रमण की चपेट में आने से बचाया जा सके।

जनहित याचिका में दावा किया गया कि वर्तमान स्थिति (कोविड-19 संकट) के मद्देनजर निजता का मौलिक अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, जहां सार्वजनिक हित और नैतिकता महत्वपूर्ण है। सोलापुर के किसान महेश गाडेकर और विधि की छात्रा वैष्णवी घोलावे ने यह याचिका

# बैंड-बाजे के साथ थाना प्रभारी की विदाई पर विवाद

देश में कोविड-19 से

इंदौर, 31 जुलाई (भाषा)।

दायर की थी।

सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में एक थाना प्रभारी के तबादले के बाद उनकी विदाई के दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आने से विवाद खडा हो गया है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का आरोप है कि इस मौके पर थाने में महामारी से बचाव के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि शहर के मल्हारगंज थाने के प्रभारी संजय मिश्रा को

शिवपुरी स्थानांतरित किया गया है।

गुरुवार को थाने से कार्यमुक्त हो

चश्मदीदों ने बताया कि वह

रहे थे, तब थाने के कर्मचारी और क्षेत्रीय नागरिकों ने उन्हें बड़े धूम-धाम के साथ विदाई दी। इस मौके के वायरल वीडियो में बैंड पर देशभिक्त धुन बजती सुनाई पड़ रही है। वहीं लोग मिश्रा को मालाएं पहनाने के साथ उन पर गुलाब की पंखुडियां बरसाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मिश्रा कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहने नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें साफ देखा जा सकता है कि उनके पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे कुछ क्षेत्रीय लोगों ने अपने चेहरे से मास्क नीचे खिसका रखा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस के खिलाफ उठ रहे सवालों पर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) महेशचंद्र जैन ने कहा, 'इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल वर्चुअल ग्लोबल एजूकेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(ईपीएस को छोड़कर रु. लाख में राशि					
विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
	31 मार्च, 20	31 दिस.,19	31 मार्च, 19	31 मार्च, 20	31 मार्च, 19
	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय	81.58	119.80	142.59	442.71	1330.47
विशिष्ट एवं असाधारण मदों तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	8.02	9.03	15.88	36.93	64.59
करों, माइनॉरिटी इन्टरेस्ट तथा एसोसिएट्स के लाभ/(हानि)के शेयर के बाद शुद्ध लाभ/ (हानि)	8.02	9.03	15.88	23.66	46.91
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	8.02	9.03	15.88	23.66	46.91
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 1/-प्रति)	4236.64	4236.64	4236.64	4236.64	4236.64
पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित	-	- 1	- 1	- 1	- 1
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.002	0.002	0.004	0.006	0.011
क) मूलः					
ख) तरलः					

परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.virtualeducation.in) पर उपलब्ध हैं वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड के लिये

www.readwhere.com

दिया जा रहा है और स्थानांतरित

पुलिस निरीक्षक की इसमें कोई

गलती नहीं है।'